



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 22, 1977/माघ 2, 1898

No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 22, 1977/MAGHA 2, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January 1977

**S.O. 38(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No S O 474(E)/IDRA/29B/75 dated the 5th September, 1975, namely:—

In the said notification, paragraph 2 shall be renumbered as paragraph 3, and before the paragraph as so renumbered, the following paragraph shall be inserted, namely:—

“2 The above expansion would be in addition to the normal permissible expansion in production by 25 per cent of the approved capacity.”

[No 12(21)/LP/75]

D K SAXENA, Jt Secy.

## उद्योग मंत्रालय

## (औद्योगिक विकास विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1977

का० आ० 38(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29 ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 474 (असा०), आई डी आर ए/29ख 75, तारीख, 5 सितम्बर, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 को पैरा 3 के रूप में पुनर्संख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्याकित पैरा के पूर्व निम्नलिखित पैरा अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

“2. उपरोक्त विस्तार अनुमोदित क्षमता के 25 प्रतिशत तक उत्पादन में प्रसामान्य अनुज्ञेय विस्तार के अतिरिक्त होगा ।

[स० 12(21)/ख० प० 75]

डी० के० लक्ष्मणा, सयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977